



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 23-10-2020

उधम सिंह नगर(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2020-10-23 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2020-10-24	2020-10-25	2020-10-26	2020-10-27	2020-10-28
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	31.0	31.0	31.0	30.0	30.0
न्यूनतम तापमान(से.)	16.0	15.0	15.0	15.0	14.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	70	70	65	65	65
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	50	50	45	45	45
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
पवन दिशा (डिग्री)	320	320	320	320	330
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	0

मौसम सारांश / चेतावनी:

विगत सात दिनों (16 - 22 अक्टूबर, 2020) में 0.0 मिमी वर्षा होने व आसमान साफ रहा व कहीं-कहीं आंशिक बादल छाये रहे। अधिकतम तापमान 31.3 से 33.6 डि०से० एवं न्यूनतम तापमान 14.9 से 17.2 डि०से० के बीच रहा तथा वायु में सुबह 0712 बजे सापेक्षित आर्द्रता 81 से 92 प्रतिशत व दोपहर 1412 बजे सापेक्षित आर्द्रता 36 से 57 प्रतिशत एवं हवा 0.7 से 2.1 कि०मी० प्रति घंटा की गति से मुख्यतः पश्चिम-उत्तर-पश्चिम से चली। आगामी पांच दिनों में मौसम साफ रहेगा। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 30.0 से 31.0 व 14.0 से 16.0 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

सामान्य सलाहकार:

आगामी पांच दिनों में मौसम शुष्क रहेगा। किसान भाई पिछले सप्ताह के मौसम, मौसम पूर्वानुमान और मौसम आधारित कृषि सलाह प्राप्त करने के लिए "मेघदूत ऐप" डाउनलोड करें। मेघदूत ऐप को गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं) और ऐप सेंटर (आईओएस उपयोगकर्ताओं) से डाउनलोड किया जा सकता है।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी पांच दिनों में मौसम साफ रहेगा। अतः किसान भाई गेहूँ की बुवाई करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
जौ	असिंचित दशा में फसल की बुवाई करें।
गेहूँ	असिंचित अवस्था में गेहूँ की उन्नतशील किस्में जैसे-सी 306, पी बी डब्लू 175, पी बी डब्लू 396, पी बी डब्लू 299, पी बी डब्लू 527 की बुवाई करें।

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
रेपसीड	तोरिया की फसल में जमाव के 15 दिन बाद विरलीकरण द्वारा घने एवं कमजोर पौधों को निकालकर पौधों से पौधों की दूरी 10-15 सेमी रखें। तथा जो फसल 20-25 दिन की हो गयी हो उसमें सिंचाई करें। सिंचाई के 4-5 दिन बाद जब खेत चलने लायक हो जाय तब बची आधी नाइट्रोजन का यूरियां द्वारा टाप ड्रेसिंग करें।
तिल	तिल की फसल माह के अन्त तक पक जाती है। इसकी समय पर कटाई कर लें तथा फलियों को पीटकर दाना अलग कर लें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
प्याज	प्याज की खेती करने वाले किसान भाई इस माह के अंत तक बीज की बुवाई करें।
पालक	मैदानी व तराई क्षेत्रों में पालक की बुवाई करें।
गोभी	किसान भाई, मैदानी व तराई क्षेत्रों में फूलगोभी की पछेती किस्मों की बुवाई कर सकते हैं।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	इस बदलते मौसम में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए उचित व्यवस्था करें।